

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2016—कार्तिक 27, शक 1938

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.